

**HIN2A08a**  
(Expression orale)

**Cours-8**

**Activité :** parler d'un animal de compagnie et des activités que vous partagez avec lui

**पालतू जानवर पालने का फायदा**

जो लोग पालतू जानवर पालते हैं वह अपने जानवर से इतना प्रेम करने लगते हैं कि उनके लिये उसे एक पल भी छोड़ पाना मुश्किल होता है। पालतू जानवर चाहे, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या फिर चिड़िया ही क्यू ना हो, वह धीरे-धीरे घर का सदस्य बन जाता है। चलिये जानते हैं कि पालतू जानवर पालने की क्या अच्छाई होती है। ये हैं फायदे-

1. तनाव से छुटकारा- जब आप दिन भर के थके-मांदे काम से घर पर वापस लौटते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, तो एक सुखद अनुभव आपको घेर लेता है। अपने पालतू जानवर का प्यार पा कर आप अपनी सारी थकान और चिन्ताएं भूल जाएंगे।
2. शारीरिक स्वास्थ्य- पालतू जानवर के घर में होने से आप चुस्त और दुरुस्त रहने लगते हैं। जानवरों के साथ गेम्स खेलना, उसे सुबह-शाम बाहर घुमाने ले जाना आदि करने से उसकी तो एक्सरसाइज होती ही है बल्कि आपकी भी वॉक हो जाती है। अगर आप बहुत ही आलसी हैं तब तो आपको एक पालतू जानवर घर में रख ही लेना चाहिये।
3. वफादारी- पालतू जानवर सबसे अच्छा साथी होता है। वे आप के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और आप को कभी धोखा नहीं देगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर कब कोई मुसीबत आ जाए या आप कितने ही तनाव में रहें, पर इस दौरान आपके पास हमेशा एक सच्चा साथी रहेगा।
4. बात सुनते हैं- आपकी लाइफ में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी बात सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं? अगर एक भी नहीं है तो परेशान ना हों क्योंकि आपके पास आपकी बात मानने वाला आपका पालतू जानवर है। आप अपने पेट से अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिससे आप हल्का महसूस करेंगे।
5. सेफ्टी- एक तेज़ और खुंखार कुत्ता पालने से आप और आपका परिवार हमेशा सेफ रहेगा। कुत्ते बड़े ही संवेदनशील और ताक-झांक करने में आगे रहते हैं। उन्हें हर मुसीबत का पहले ही अंदाजा हो जाता है।

**Vocabulaire et expressions utiles**

पालतू domestique	चिन्ता (f) souci	ताक-झांक (f) करना fourrer son nez
जंगली sauvage	शारीरिक स्वास्थ्य (f)santé physique	अंदाजा (m) estimation
पालना, पालन करना élever	चुस्त énergique	जानवर (m), प्राणी (m) animal
पल (m) instant	दुरुस्त en forme	करीब près
खरगोश (m) lapin	आलसी paresseux	दूर loin
सदस्य (m) membre	साथी (m) compagnon	मुटापा/मोटापा (m) obésité
फायदा (m) bénéfice	आप के प्रति envers vous	दुबला पतला maigre
तनाव (m) tension	वफादार fidèle	शिकार होना être victime de
छुटकारा (m) débarras	धोखा (m) tromperie	अध्ययन (m) (करना) (faire) étude
थका-मांदा fatigué	मुसीबत(f)détresse, épreuve	पता चलना être au courant de
सुखद agréable	आज्ञा का पालन obéir un ordre	देखभाल (f) करना s'occuper de
अनुभव (m) expérience	हल्का léger	ध्यान रखना veiller sur quelqu'un
घेरना encercler	खुंखार sauvage, sanguinaire	दिनचर्या (f) routine de la journée
थकान (f) fatigue	संवेदनशील sensible	